

तब बछड़े में से सारी चर्बी निकालो। तब कलेजे के चारों ओर की चर्बी और दोनों गुर्दे और उसकी चारों ओर की चर्बी लो। इस चर्बी को वेदी पर जलाओ।

לְמַחְנָה	מִחוּץ	בְּאֵשׁ	תִּשְׂרֹף	פְּרָשׁוֹ	וְאֶת־	עֲרֹו	וְאֶת־	הַפֶּרֶר	בְּשֵׁר	וְאֶת־	14
छावनी-के	बाहर	आग-में	जलाना	उसका-गोबर	और-को-	उसकी-खाल	और-को-	बैल	मांस	और-को-	
H4264	H2351	H0784	H8313	H6569	H0853	H5785	H0853	H6499	H1320	H0853	

הָאֵילָּהּ :
है-यह पापबलि
[H1931](#)

तब बछड़े के माँस, उसके चमड़े और उसके दूसरे अंगों को लो और अपने डेरे से बाहर जाओ। इन चीजों को डेरे के बाहर जलाओ। यह भेंट है जो याजकों के पापों को दूर करने के लिए चढ़ाई जाती है।

רֹאשׁ	עַל־	יְדֵיהֶם	אֶת־	וּבְנָיו	אֶהְרֹן	וְסֹמְכֹו	תִּקַּח	הָאֶחָד	הָאֵילָּהּ	וְאֶת־	15
सिर	पर-	अपने-हाथों	को-	और-उसके-पुत्र	हारून	और-रखें	लेना	एक	मेंढा	और-को-	
		H3027	H0853		H0175	H5564	H3947	H0259		H0853	

הָאֵילָּהּ :
मेंढे

“तब हारून और उसके पुत्रों से मेंढे के सिर पर हाथ रखने को कहो।

סְבִיב :	הַמִּזְבֵּחַ	עַל־	וְזָרְקָהּ	דָּמוֹ	אֶת־	וְלָקַחְתָּ	הָאֵילָּהּ	אֶת־	וְשָׂחַטְתָּ	16
चारों-ओर	वेदी	पर-	और-छिड़कना	उसका-लहू	को-	और-लेना	मेंढे	को-	और-ज़बह-करना	
H5439	H4196		H2236	H1818	H0853	H3947		H0853		

तब उस मेंढे को मार डालो और उसके खून को लो। खून को वेदी के चारों ओर छिड़को।

עַל־	וְנָתַתָּ	וּבְרָעָיו	קָרְבֹו	וְרַחֲצָהּ	לְנִתְחָיו	תַּנְתַּח	הָאֵילָּהּ	וְאֶת־	17
पर-	और-देना	और-उसके-पैर	उसकी-अँतड़ियाँ	और-धोना	उसके-टुकड़ों-में	काटना	मेंढे	और-को-	
	H5414	H3767	H7130	H7364	H5409	H5408		H0853	

נִתְחָיו :
उसके-सिर और-पर-
उसके-टुकड़ों
[H5409](#)

तब मेंढे को कई टुकड़ों में काटो। मेंढे के भीतर के सभी अंगो और पैरों को धोओ। इन चीजों को सिर तथा मेंढे के अन्य टुकड़ों के साथ रखो।

אֲשָׁה	נִיחֹוֹחַ	רִיחַ	לְיְהוָה	הוּא	עֲלָהּ	הַמִּזְבֵּחַ	הָאֵילָּהּ	כָּל־	אֶת־	וְהִקְטַרְתָּ	18
अग्निबलि	सुखदायक	सुगन्ध	यहोवा-के-लिए	है-यह	होमबलि	वेदी-पर	मेंढे	सारे	को-	और-जलाना	
H0801	H5207	H7381	H3068	H1931		H4196		H3605	H0853		

לְיְהוָה :
है-यह यहोवा-के-लिए
[H1931](#) [H3068](#)

तब वेदी पर इन को जलाओ। यह वह विशेष भेंट है जो जलाई जाती है। यह होमबलि यहोवा के लिए है। इसकी सुगन्ध यहोवा को प्रसन्न करेगी। यह ऐसी होमबलि है जो यहोवा को आग के द्वारा दी जाती है।

רֹאשׁ	עַל־	יְדֵיהֶם	אֶת־	וּבְנָיו	אֶהְרֹן	וְסֹמְכֹו	הַשֵּׁנִי	הָאֵילָּהּ	אֶת־	וְלָקַחְתָּ	19
सिर	पर-	अपने-हाथों	को-	और-उसके-पुत्र	हारून	और-रखें	दूसरा	मेंढा	को	और-लेना	
		H3027	H0853		H0175	H5564	H8145		H0853	H3947	

הָאֵילָּהּ :
मेंढे

“हारून और उसके पुत्रों को दूसरे मेंढे पर हाथ रखने को कहो।

29
 בָּהֶם לְמִשְׁחָה אַחֲרָיו לְבָנָיו יְהִיוּ לְאַהֲרֹן אֲשֶׁר הַקֹּדֶשׁ וּבְנֵי
 उनमें अभिषेक-करने-को उसके-बाद उसके-पुत्रों-के-लिए हों हारून-के-लिए जो पवित्रता और-वस्त्र
 H1961 H0175 H6944

וּלְמִלָּא- בָּם אֶת- יָדָם:
 और-भरने-को- उनमें को- उनका-हाथ
 H3027 H0853 H4390

“उन विशेष वस्त्रों को सुरक्षित रखो जो हारून के लिए बने थे। ये वस्त्र उसके उत्तराधिकारी वंशजों के लिए होंगे। वे उन वस्त्रों को तब पहनेंगे जब याजक नियुक्त किए जाएँगे।

30
 מוֹעֵד אֶהְלֵ אֶל- יבֵּא אֲשֶׁר מִבְּנָיו תַּחֲתָיו הַכֹּהֵן יִלְבָּשׁוּ יָמִים שְׁבַעַת
 मिलाप तम्बू में- आए जो उसकी-जगह याजक पहने दिन सात
 H4150 H0168 H0413 H0935 H8478 H3548 H3847 H3117 H7651

בְּקֹדֶשׁ: לְשֵׁרֵת
 पवित्रस्थान-में सेवा-करने-को
 H6944 H8334

हारून का जो पुत्र उसके बाद अगला महायाजक होगा, वह सात दिन तक उन वस्त्रों को पहनेगा, जब वह मिलापवाले तम्बू के पवित्र स्थान में सेवा करने आएगा।

31
 קֹדֶשׁ: בְּמִקְוָם אֶת- בְּשָׂרוֹ וּבְשֵׁלֶת וּבְחֹלֵת הַמְּלֵאִים אֵיל וְאֵת
 पवित्र स्थान-में को- और-पकाना लेना भरण मेंड़ा और-को
 H6918 H4725 H1320 H0853 H1310 H3947 H4394 H0853

“उस मेढ़े के माँस को पकाओ जो हारून को महायाजक बनाने के लिए उपयोग में आया था। उस माँस को एक पवित्र स्थान पर पकाओ।

32
 פֶּתַח בְּסֵל אֲשֶׁר הַלֶּחֶם וְאֵת הָאֵיל בְּשָׂרֹ אֶת- וּבְנָיו אַהֲרֹן וְאֶכֶל
 द्वार टोकरी-में जो रोटी और-को- मेंड़े माँस को- और-उसके-पुत्रों हारून और-खाना
 H6607 H5536 H3899 H0853 H1320 H0853 H0175 H0398

אֶהְלֵ מוֹעֵד:
 मिलाप तम्बू
 H4150 H0168

तब हारून और उसके पुत्र मिलापवाले तम्बू के द्वार पर माँस खाएँगे, और वे उस टोकरी की रोटी भी खाएँगे।

33
 אֲתָם לְקֹדֶשׁ יָדָם אֶת- לְמִלָּא בָּהֶם כִּפָּר אֲשֶׁר וְאֶכְלוּ אֲתָם
 उन्हें पवित्र-करने-को उनका-हाथ को- भरने-को उनसे प्रायश्चित्त-किया-गया जिनसे उन्हें और-वे-खाएँ
 H0853 H6942 H3027 H0853 H4390 H0853 H0398

וְזָר לֹא- יֹאכֵל כִּי- קֹדֶשׁ הֵם:
 और-पराया न- खाए क्योंकि- पवित्र हैं-वे
 H1992 H6944 H0398 H3808

इन भेटों का उपयोग उनके पाप को समाप्त करने के लिए तब हुआ था जब वे याजक बने थे। ये मेढ़े बस उन्हीं को खाना चाहिए किसी अन्य को नहीं। क्योंकि ये पवित्र है।

34
 הַנּוֹתָר אֶת- וְשָׂרְפָתָהּ הַבֶּקֶר עַד- הַלֶּחֶם וּמִן- הַמְּלֵאִים מִבְּשָׂרֹ יוֹתֵר וְאֵם-
 बची-हुई को- और-जलाना सुबह तक- रोटी और-से- भरण माँस-से बच-जाए और-यदि-

בְּאֵשׁ לֹא- יֹאכֵל כִּי- קֹדֶשׁ הוּא:
 आग-में न- खाई-जाए क्योंकि- पवित्र है-यह
 H1931 H6944 H0398 H3808 H0784

यदि उस मेढ़े का कुछ माँस या कोई रोटी अगले सवेरे के लिए बच जाए तो उसे जला देना चाहिए। तुम्हें वह रोटी या माँस नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह केवल विशेष ढंग से विशेष समय पर ही खाया जाना चाहिए।

שַׁבְּעַת	אַתְּכָה	צְוִיתִי	אֲשֶׁר-	כְּכֹל	כְּכֹה	וּלְבָנָיו	לְאַהֲרֹן	וְעֹשֵׂיתָ	35
सात	तुझे	मैंने-आज्ञा-दी	जैसा-	सब-के-अनुसार	ऐसा-ही	और-उसके-पुत्रों-के-लिए	हारून-के-लिए	और-करना	
H7651	H0853	H6680		H3605	H3602		H0175		

יָדָם:	תָּמְלָא	יָמִים
उनका-हाथ	भरना	दिन
H3027	H4390	H3117

“वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें हारून और उसके पुत्रों के लिए करने को आदेश दिया है। यह समारोह सात दिन तक चलेगा।

בְּכַפֵּרָה	הַמִּזְבֵּחַ	עַל-	וְחִטָּאתָ	הַכֹּפְרִים	עַל-	לַיּוֹם	תַּעֲשֶׂה	חֲטָאתָ	וּפָר	36
जब-तू-प्रायश्चित्त-करे	वेदी	पर-	और-शुद्ध-करना	प्रायश्चित्त	पर-	प्रति-दिन	करना	पापबलि	और-बैल	
	H4196		H2398	H3725		H3117			H6499	

לְקַדְּשׁוּ:	אֹתוֹ	וּמִשְׁחָתָ	עָלָיו
पवित्र-करने-को-उसे	उसे	और-अभिषेक-करना	उस-पर
H6942	H0853	H4886	

सात दिन तक हर रोज़ एक—एक बछड़े को मारो। यह हारून और उसके पुत्रों के पाप के लिए भेंट होगी। तुम इन दिनों दिए गए बलिदानों का उपयोग वेदी को शुद्ध करने के लिए करना और वेदी को पवित्र बनाने के लिए जैतून का तेल इस पर डालना।

שַׁבְּעַת	יָמִים	תְּכַפֵּר	עַל-	הַמִּזְבֵּחַ	וְקַדְּשֵׁתָ	אֹתוֹ	וְהִיָּה	הַמִּזְבֵּחַ	קָדָשׁ	37
सात	दिन	प्रायश्चित्त-करना	पर-	वेदी	और-पवित्र-करना	उसे	और-ही	वेदी	अति-पवित्र	
H7651	H3117			H4196	H6942	H0853	H1961	H4196	H6944	

כָּל-	הַנֶּגַע	בְּמִזְבַּח	יְקַדְּשׁוּ:	ס
सब-	जो-छूए	वेदी-को	पवित्र-हो	¶
H3605	H5060	H4196	H6942	

तुम सात दिन तक वेदी को शुद्ध और पवित्र करना। उस समय वेदी अत्याधिक पवित्र होगी। वेदी को छूने वाली कोई भी चीज़ पवित्र हो जाएगी।

וְהָיָה	אֲשֶׁר	תַּעֲשֶׂה	עַל-	הַמִּזְבֵּחַ	כְּבָשִׁים	בְּנֵי-	שָׁנָה	שָׁנִים	לַיּוֹם	תָּמִיד:	38
और-यह	जो	करना	पर-	वेदी	मेमने	एक-वर्षीय-	¶	दो	प्रति-दिन	नित्य	
H2088				H4196	H3532		H8141	H8147	H3117	H8548	

“हर एक दिन वेदी पर तुम्हें एक भेंट चढ़ानी चाहिए। तुम्हें एक—एक वर्ष के दो मेमनों की भेंट चढ़ानी चाहिए।

אֶת-	הַכֹּבֵשׁ	הָאֶחָד	תַּעֲשֶׂה	בְּבִקְרָ	וְאֵת	הַכֹּבֵשׁ	הַשֵּׁנִי	תַּעֲשֶׂה	בֵּין	הָעֶרְבָּיִם:	39
को-	मेमना	एक	करना	सुबह-में	और-को	मेमना	दूसरा	करना	बीच	दोनों-शामों	
H0853	H3532	H0259		H1242	H0853	H3532	H8145		H0996	H6153	

एक मेमने की भेंट प्रातःकाल चढ़ाओ और दूसरे की सन्ध्या के समय।

וְעֹשְׂרוֹן	סֹלֶת	בָּלוּל	בְּשֶׁמֶן	כֹּתִיתָ	רָבַע	הָהָיִן	וְגֹסֶר	רַבְעִית	הָהָיִן	יָיִן	40
और-दसवाँ	मैदा	मिला-हुआ	तेल-में	कूटा-हुआ	चौथाई	हीन	और-अर्घ	चौथाई	हीन	दाखरस	
H6241	H5560		H8081	H3795	H7253	H1969	H5262	H7253	H1969	H3196	

לְכַבֵּשׁ	הָאֶחָד:
मेमने-के-लिए	एक
H3532	H0259

जब तुम पहले मेमने को मारो, दो पौण्ड गेहूँ का महीन आटा भी भेंट चढ़ाओ। गेहूँ के आटे को एक क्वार्ट भेंट स्वरूप दाखमधु में मिलाओ। जब तुम दूसरे मेमने को सन्ध्या के समय मारो तब दो पौण्ड महीन आटा भी भेंट में चढ़ाओ और एक क्वार्ट दाखमधु भी भेंट करो। यह वैसा ही है जैसा तुमने प्रातः काल किया था। यह यहोवा को भोजन की भेंट होगी। जब तुम उस भेंट को जलाओगे तो यहोवा इसकी सुगन्ध लेगा और यह उसे प्रसन्न करेगी।

וְאֵת	הַכֹּבֵשׁ	הַשֵּׁנִי	תַּעֲשֶׂה	בֵּין	הָעֶרְבָּיִם	כְּמִנְחָתָ	הַבִּקְרָ	וּכְנֹסְכָה	41
और-को	मेमना	दूसरा	करना	बीच	दोनों-शामों	अन्नबलि-के-अनुसार	सुबह	और-उसके-अर्घ-के-अनुसार	
H0853	H3532	H8145		H0996	H6153	H4503	H1242	H5262	

לְתַעֲשֶׂה-	לְהִיָּח	לְרִיחַ	גִּיחָת	אֵשׁ	לְיַהֲנֶנָּה:
करना-	उसे	सुगन्ध-के-लिए	सुखदायक	अग्निबलि	यहोवा-के-लिए
		H7381	H5207	H0801	H3068

जब तुम पहले मेमने को मारो, दो पौण्ड गेहूँ का महीन आटा भी भेंट चढ़ाओ। गेहूँ के आटे को एक क्वार्ट भेंट स्वरूप दाखमधु में मिलाओ। जब तुम दूसरे मेमने को सन्ध्या के समय मारो तब दो पौण्ड महीन आटा भी भेंट में चढ़ाओ और एक क्वार्ट दाखमधु भी भेंट करो। यह वैसा ही है जैसा तुमने प्रातः काल किया था। यह यहोवा को भोजन की भेंट होगी। जब तुम उस भेंट को जलाओगे तो यहोवा इसकी सुगन्ध लेगा और यह उसे प्रसन्न करेगी।

עֲלֵת הוֹמְבִלִי תָמִיד לְדַרְתֵיכֶם מוֹעֵד אֶהְלֶה בְּפֶתַח דְּוָר מוֹעֵד לְפָנַי יְהוָה אֲשָׁר לְכֶם מִמֶּנִּי שְׁמָה 42
 वहाँ तुम-से मैं-मिलूँगा जहाँ यहोवा के-सामने मिलाप तम्बू- द्वार द्वार मिलाप तम्बू- द्वार द्वार तुम्हारी-पीढ़ियों-में नित्य होमबलि
[H8033](#) [H3259](#) [H3068](#) [H6440](#) [H4150](#) [H0168](#) [H6607](#) [H1755](#) [H8548](#)

לְדַבֵּר אֵלַי שָׁם :
 बोलने-की तुझसे वहाँ
[H8033](#) [H0413](#) [H1696](#)

“तुम्हें इन चीजों को यहोवा को भेंट में रोज़ जलाना चाहिए। यह यहोवा के सामने, मिलापवाले तम्बू के द्वार पर करो। यह सदा करते रहो। जब तुम भेंट चढ़ाओगे तब मैं अर्थात् यहोवा वहाँ तुम से मिलूँगा और तुमसे बातें करूँगा।

וְנִעַדְתִּי וְנִעַדְתִּי אֵלַי שְׁמָה לְבָנַי יִשְׂרָאֵל וְנִקְדַּשׁ בְּכִבְדֵי : 43
 और-मैं-मिलूँगा वहाँ और-पुत्रों के-पुत्रों इस्राएल और-पवित्र-किया-जाएगा अपनी-महिमा-से
[H3519](#) [H6942](#) [H3478](#) [H8033](#) [H3259](#)

मैं इस्राएल के लोगों से उस स्थान पर मिलूँगा और वह स्थान मेरे तेज़ के कारण पवित्र बन जाएगा।

וְקִדְשְׁתִּי וְקִדְשְׁתִּי אֶת- אֶהְלֶה מוֹעֵד וְאֶת- אֶהְלֶה וְאֶת- אֶהְלֶה בְּנֵי וְאֶת- 44
 और-मैं-पवित्र-करूँगा और-मैं-पवित्र-करूँगा को- तम्बू मिलाप तम्बू को- और-को- और-को- वेदी और-को- मिलाप तम्बू को- और-को- उसके-पुत्रों
[H0853](#) [H0175](#) [H0853](#) [H4196](#) [H0853](#) [H4150](#) [H0168](#) [H0853](#) [H6942](#)

אֶקְדֶּשׁ לִי : לְכֶן יָאֲזַק-הוֹנֶה-כֹּה מֵ-פַּיִם-כִּי
 मैं-पवित्र-करूँगा याजक-होने-को मेरे-लिए
[H3547](#) [H6942](#)

“इस प्रकार मैं मिलापवाले तम्बू को पवित्र बनाऊँगा और मैं वेदी को भी पवित्र बनाऊँगा और मैं हासून और उसके पुत्रों को पवित्र बनाऊँगा जिससे वे मेरी सेवा याजक के रूप में कर सकें।

וְשִׁכְנֵתִי וְשִׁכְנֵתִי בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְהָיִיתִי לָהֶם לְאֱלֹהִים : 45
 और-मैं-निवास-करूँगा और-मैं-निवास-करूँगा के-बीच के-बीच पुत्रों इस्राएल और-मैं-होऊँगा उनका-परमेश्वर परमेश्वर-के-रूप-में
[H0430](#) [H1961](#) [H3478](#) [H8432](#) [H7931](#)

मैं इस्राएल के लोगों के साथ रहूँगा। मैं उनका परमेश्वर होऊँगा।

וַיְדַעְוּ וַיְדַעְוּ כִּי אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיהֶם אֲשָׁר הוֹצֵאתִי אֹתָם מִמִּצְרָיִם 46
 और-वे-जानें और-वे-जानें कि कि मैं मैं यहोवा उनका-परमेश्वर यहोवा जो मैंने-निकाला उन्हें देश-से मिस्र
[H4714](#) [H0776](#) [H0853](#) [H3318](#) [H0430](#) [H3068](#) [H0589](#) [H3045](#)

לְשִׁכְנֵי בְּתוֹכָם אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיהֶם :
 मेरे-निवास-करने-को उनके-बीच मैं यहोवा उनका-परमेश्वर
[H0430](#) [H3068](#) [H0589](#) [H8432](#) [H7931](#)

लोग यह जानेंगे कि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। वे जानेंगे कि मैं ही वह हूँ जो उन्हें मिस्र से बाहर लाया ताकि मैं उनके साथ रह सकूँ। मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ।”